

# Pradeep

05 Mar 1987

07:15 AM

Jeypore

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: पुल्लिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 05/03/1987  
दिन \_\_\_\_\_: गुरुवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 07:15:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 02:26:11 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Jeypore  
राज्य \_\_\_\_\_: Odisha  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 18:52:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 82:38:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:32 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 07:15:32 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:11:41 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 18:04:40 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 06:16:31 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 18:05:58 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 11:49:27 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: उत्तरायण  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: दक्षिण  
ऋतु \_\_\_\_\_: वसन्त  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 20:16:24 कुम्भ  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 07:48:46 मीन

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: मीन - गुरु  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: मेष - मंगल  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: भरणी - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: शुक्र  
योग \_\_\_\_\_: ऐन्द्र  
करण \_\_\_\_\_: कौलव  
गण \_\_\_\_\_: मनुष्य  
योनि \_\_\_\_\_: गज  
नाड़ी \_\_\_\_\_: मध्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: क्षत्रिय  
वश्य \_\_\_\_\_: चतुष्पाद  
वर्ग \_\_\_\_\_: मृग  
चुँजा \_\_\_\_\_: पूर्व  
हंसक \_\_\_\_\_: अग्नि  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: ले-लेखपाल  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: रजत - स्वर्ण  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: मीन



## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

| कैलेंडर    | वर्ष          | मास     | तिथि/प्रविष्टे |
|------------|---------------|---------|----------------|
| राष्ट्रीय  | शक : 1908     | फाल्गुन | 14             |
| पंजाबी     | संवत : 2043   | फाल्गुन | 22             |
| बंगाली     | सन् : 1393    | फाल्गुन | 20             |
| तमिल       | संवत : 2043   | मासी    | 21             |
| केरल       | कोल्लम : 1162 | कुंभम   | 21             |
| नेपाली     | संवत : 2043   | फाल्गुन | 21             |
| चैत्रादि   | संवत : 2043   | फाल्गुन | शुक्ल 6        |
| कार्तिकादि | संवत : 2043   | फाल्गुन | शुक्ल 6        |

### पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 6  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 26:35:25  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 6  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : भरणी  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 14:08:07 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : भरणी  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : ऐन्द्र  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 13:08:03 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : ऐन्द्र  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 13:54:48 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
भयात \_\_\_\_\_ : 46:15:42  
भभोग \_\_\_\_\_ : 63:28:30  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : शुक्र 5 वर्ष 4 मा 13 दि

### घात चक्र

मास \_\_\_\_\_ : कार्तिक  
तिथि \_\_\_\_\_ : 1-6-11  
दिन \_\_\_\_\_ : रविवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मघा  
योग \_\_\_\_\_ : विष्कुम्भ  
करण \_\_\_\_\_ : बव  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : सिंह  
लग्न \_\_\_\_\_ : मेष  
सूर्य \_\_\_\_\_ : कर्क  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : मेष  
मंगल \_\_\_\_\_ : सिंह  
बुध \_\_\_\_\_ : वृष  
गुरु \_\_\_\_\_ : कन्या  
शुक्र \_\_\_\_\_ : तुला  
शनि \_\_\_\_\_ : मिथुन  
राहु \_\_\_\_\_ : वृश्चिक


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

| ग्रह    | व | अ | राशि   | अंश      | गति       | नक्षत्र     | पद | नं. | रा    | न     | अं.   | स्थिति     |
|---------|---|---|--------|----------|-----------|-------------|----|-----|-------|-------|-------|------------|
| लग्न    |   |   | मीन    | 07:48:46 | 461:49:07 | उ०भाद्रपद   | 2  | 26  | गुरु  | शनि   | केतु  | ---        |
| सूर्य   |   |   | कुंभ   | 20:16:24 | 01:00:08  | पू०भाद्रपद  | 1  | 25  | शनि   | गुरु  | गुरु  | शत्रु राशि |
| चंद्र   |   |   | मेष    | 23:05:13 | 12:31:19  | भरणी        | 3  | 2   | मंगल  | शुक्र | शनि   | सम राशि    |
| मंगल    |   |   | मेष    | 14:53:27 | 00:41:07  | भरणी        | 1  | 2   | मंगल  | शुक्र | शुक्र | स्वराशि    |
| बुध     | व | अ | कुंभ   | 09:35:27 | 00:50:10  | शतभिषा      | 1  | 24  | शनि   | राहु  | गुरु  | सम राशि    |
| गुरु    |   |   | मीन    | 06:52:00 | 00:14:15  | उ०भाद्रपद   | 2  | 26  | गुरु  | शनि   | बुध   | स्वराशि    |
| शुक्र   |   |   | मक     | 08:21:49 | 01:10:19  | उत्तराषाढ़ा | 4  | 21  | शनि   | सूर्य | शुक्र | मित्र राशि |
| शनि     |   |   | वृश्चि | 26:55:11 | 00:02:34  | ज्येष्ठा    | 4  | 18  | मंगल  | बुध   | गुरु  | शत्रु राशि |
| राहु    |   |   | मीन    | 18:06:07 | 00:01:49  | रेवती       | 1  | 27  | गुरु  | बुध   | बुध   | सम राशि    |
| केतु    |   |   | कन्या  | 18:06:07 | 00:01:49  | हस्त        | 3  | 13  | बुध   | चंद्र | बुध   | शत्रु राशि |
| हर्ष    |   |   | धनु    | 02:43:48 | 00:01:24  | मूल         | 1  | 19  | गुरु  | केतु  | शुक्र | ---        |
| नेप     |   |   | धनु    | 13:58:12 | 00:01:10  | पूर्वाषाढ़ा | 1  | 20  | गुरु  | शुक्र | शुक्र | ---        |
| प्लूटो  | व |   | तुला   | 16:09:53 | 00:00:44  | स्वाति      | 3  | 15  | शुक्र | राहु  | शुक्र | ---        |
| दशम भाव |   |   | धनु    | 07:23:28 | --        | मूल         | -- | 19  | गुरु  | केतु  | राहु  | --         |


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:40:37


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



## विंशोत्तरी दशा

### भोग्य दशा काल : शुक्र 5 वर्ष 4 मास 13 दिन

| शुक्र 20 वर्ष   | सूर्य 6 वर्ष     | चंद्र 10 वर्ष    | मंगल 7 वर्ष      | राहु 18 वर्ष     |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05/03/1987      | 17/07/1992       | 18/07/1998       | 17/07/2008       | 18/07/2015       |
| 17/07/1992      | 18/07/1998       | 17/07/2008       | 18/07/2015       | 17/07/2033       |
| 00/00/0000      | सूर्य 04/11/1992 | चंद्र 18/05/1999 | मंगल 13/12/2008  | राहु 30/03/2018  |
| 00/00/0000      | चंद्र 05/05/1993 | मंगल 17/12/1999  | राहु 01/01/2010  | गुरु 23/08/2020  |
| 00/00/0000      | मंगल 10/09/1993  | राहु 17/06/2001  | गुरु 08/12/2010  | शनि 30/06/2023   |
| 00/00/0000      | राहु 05/08/1994  | गुरु 17/10/2002  | शनि 16/01/2012   | बुध 16/01/2026   |
| 00/00/0000      | गुरु 24/05/1995  | शनि 17/05/2004   | बुध 13/01/2013   | केतु 03/02/2027  |
| 05/03/1987      | शनि 05/05/1996   | बुध 17/10/2005   | केतु 11/06/2013  | शुक्र 03/02/2030 |
| शनि 17/07/1988  | बुध 11/03/1997   | केतु 18/05/2006  | शुक्र 11/08/2014 | सूर्य 29/12/2030 |
| बुध 18/05/1991  | केतु 17/07/1997  | शुक्र 16/01/2008 | सूर्य 17/12/2014 | चंद्र 29/06/2032 |
| केतु 17/07/1992 | शुक्र 18/07/1998 | सूर्य 17/07/2008 | चंद्र 18/07/2015 | मंगल 17/07/2033  |

| गुरु 16 वर्ष     | शनि 19 वर्ष      | बुध 17 वर्ष      | केतु 7 वर्ष      | शुक्र 20 वर्ष    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17/07/2033       | 17/07/2049       | 17/07/2068       | 17/07/2085       | 17/07/2092       |
| 17/07/2049       | 17/07/2068       | 17/07/2085       | 17/07/2092       | 00/00/0000       |
| गुरु 04/09/2035  | शनि 20/07/2052   | बुध 14/12/2070   | केतु 13/12/2085  | शुक्र 17/11/2095 |
| शनि 18/03/2038   | बुध 30/03/2055   | केतु 11/12/2071  | शुक्र 13/02/2087 | सूर्य 16/11/2096 |
| बुध 23/06/2040   | केतु 08/05/2056  | शुक्र 11/10/2074 | सूर्य 20/06/2087 | चंद्र 18/07/2098 |
| केतु 30/05/2041  | शुक्र 09/07/2059 | सूर्य 17/08/2075 | चंद्र 19/01/2088 | मंगल 17/09/2099  |
| शुक्र 29/01/2044 | सूर्य 20/06/2060 | चंद्र 16/01/2077 | मंगल 17/06/2088  | राहु 17/09/2102  |
| सूर्य 16/11/2044 | चंद्र 19/01/2062 | मंगल 13/01/2078  | राहु 05/07/2089  | गुरु 18/05/2105  |
| चंद्र 18/03/2046 | मंगल 28/02/2063  | राहु 01/08/2080  | गुरु 11/06/2090  | शनि 06/03/2107   |
| मंगल 22/02/2047  | राहु 04/01/2066  | गुरु 07/11/2082  | शनि 21/07/2091   | 00/00/0000       |
| राहु 17/07/2049  | गुरु 17/07/2068  | शनि 17/07/2085   | बुध 17/07/2092   | 00/00/0000       |

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शुक्र 5 वर्ष 5 मा 3 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।



## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>शुक्र - शनि</b><br>05/03/1987<br>17/07/1988   | <b>शुक्र - बुध</b><br>17/07/1988<br>18/05/1991   | <b>शुक्र - केतु</b><br>18/05/1991<br>17/07/1992  | <b>सूर्य - सूर्य</b><br>17/07/1992<br>04/11/1992   | <b>सूर्य - चंद्र</b><br>04/11/1992<br>05/05/1993   |
| 00/00/0000<br>00/00/0000<br>00/00/0000<br>05/03/1987<br>सूर्य 13/03/1987<br>चंद्र 18/06/1987<br>मंगल 24/08/1987<br>राहु 14/02/1988<br>गुरु 17/07/1988                    | बुध 11/12/1988<br>केतु 09/02/1989<br>शुक्र 31/07/1989<br>सूर्य 21/09/1989<br>चंद्र 16/12/1989<br>मंगल 15/02/1990<br>राहु 20/07/1990<br>गुरु 05/12/1990<br>शनि 18/05/1991 | केतु 12/06/1991<br>शुक्र 22/08/1991<br>सूर्य 12/09/1991<br>चंद्र 18/10/1991<br>मंगल 11/11/1991<br>राहु 14/01/1992<br>गुरु 11/03/1992<br>शनि 18/05/1992<br>बुध 17/07/1992 | सूर्य 22/07/1992<br>चंद्र 01/08/1992<br>मंगल 07/08/1992<br>राहु 23/08/1992<br>गुरु 07/09/1992<br>शनि 24/09/1992<br>बुध 10/10/1992<br>केतु 16/10/1992<br>शुक्र 04/11/1992 | चंद्र 19/11/1992<br>मंगल 29/11/1992<br>राहु 27/12/1992<br>गुरु 20/01/1993<br>शनि 18/02/1993<br>बुध 16/03/1993<br>केतु 27/03/1993<br>शुक्र 26/04/1993<br>सूर्य 05/05/1993 |
| <b>सूर्य - मंगल</b><br>05/05/1993<br>10/09/1993  | <b>सूर्य - राहु</b><br>10/09/1993<br>05/08/1994  | <b>सूर्य - गुरु</b><br>05/08/1994<br>24/05/1995  | <b>सूर्य - शनि</b><br>24/05/1995<br>05/05/1996   | <b>सूर्य - बुध</b><br>05/05/1996<br>11/03/1997   |
| मंगल 13/05/1993<br>राहु 01/06/1993<br>गुरु 18/06/1993<br>शनि 08/07/1993<br>बुध 26/07/1993<br>केतु 03/08/1993<br>शुक्र 24/08/1993<br>सूर्य 30/08/1993<br>चंद्र 10/09/1993 | राहु 29/10/1993<br>गुरु 12/12/1993<br>शनि 02/02/1994<br>बुध 21/03/1994<br>केतु 09/04/1994<br>शुक्र 03/06/1994<br>सूर्य 19/06/1994<br>चंद्र 17/07/1994<br>मंगल 05/08/1994 | गुरु 13/09/1994<br>शनि 29/10/1994<br>बुध 09/12/1994<br>केतु 26/12/1994<br>शुक्र 13/02/1995<br>सूर्य 28/02/1995<br>चंद्र 24/03/1995<br>मंगल 10/04/1995<br>राहु 24/05/1995 | शनि 18/07/1995<br>बुध 05/09/1995<br>केतु 25/09/1995<br>शुक्र 22/11/1995<br>सूर्य 10/12/1995<br>चंद्र 07/01/1996<br>मंगल 28/01/1996<br>राहु 20/03/1996<br>गुरु 05/05/1996 | बुध 18/06/1996<br>केतु 06/07/1996<br>शुक्र 27/08/1996<br>सूर्य 11/09/1996<br>चंद्र 07/10/1996<br>मंगल 25/10/1996<br>राहु 11/12/1996<br>गुरु 21/01/1997<br>शनि 11/03/1997 |
| <b>सूर्य - केतु</b><br>11/03/1997<br>17/07/1997  | <b>सूर्य - शुक्र</b><br>17/07/1997<br>18/07/1998   | <b>चंद्र - चंद्र</b><br>18/07/1998<br>18/05/1999   | <b>चंद्र - मंगल</b><br>18/05/1999<br>17/12/1999  | <b>चंद्र - राहु</b><br>17/12/1999<br>17/06/2001  |
| केतु 19/03/1997<br>शुक्र 09/04/1997<br>सूर्य 16/04/1997<br>चंद्र 26/04/1997<br>मंगल 04/05/1997<br>राहु 23/05/1997<br>गुरु 09/06/1997<br>शनि 29/06/1997<br>बुध 17/07/1997 | शुक्र 16/09/1997<br>सूर्य 04/10/1997<br>चंद्र 04/11/1997<br>मंगल 25/11/1997<br>राहु 19/01/1998<br>गुरु 09/03/1998<br>शनि 05/05/1998<br>बुध 26/06/1998<br>केतु 18/07/1998 | चंद्र 12/08/1998<br>मंगल 30/08/1998<br>राहु 14/10/1998<br>गुरु 24/11/1998<br>शनि 11/01/1999<br>बुध 23/02/1999<br>केतु 13/03/1999<br>शुक्र 03/05/1999<br>सूर्य 18/05/1999 | मंगल 30/05/1999<br>राहु 01/07/1999<br>गुरु 30/07/1999<br>शनि 01/09/1999<br>बुध 02/10/1999<br>केतु 14/10/1999<br>शुक्र 19/11/1999<br>सूर्य 29/11/1999<br>चंद्र 17/12/1999 | राहु 08/03/2000<br>गुरु 20/05/2000<br>शनि 15/08/2000<br>बुध 01/11/2000<br>केतु 03/12/2000<br>शुक्र 04/03/2001<br>सूर्य 31/03/2001<br>चंद्र 16/05/2001<br>मंगल 17/06/2001 |

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांको से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| मूलांक       | 5                        |
| भाग्यांक     | 6                        |
| मित्र अंक    | 3, 5, 9, 6               |
| शत्रु अंक    | 2, 4, 8                  |
| शुभ वर्ष     | 23,32,41,50,59           |
| शुभ दिन      | सोम, मंगल, गुरु          |
| शुभ ग्रह     | चन्द्र, मंगल, गुरु       |
| मित्र राशि   | कर्क, धनु                |
| मित्र लग्न   | मिथुन, वृश्चिक, मकर      |
| अनुकूल देवता | हनुमान                   |
| शुभ रत्न     | पुखराज                   |
| शुभ उपरत्न   | सुनहला, पीला हकीक        |
| भाग्य रत्न   | मूंगा                    |
| शुभ धातु     | कांसा                    |
| शुभ रंग      | पीत                      |
| शुभ दिशा     | पूर्वोत्तर               |
| शुभ समय      | संध्या                   |
| दान पदार्थ   | हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प |
| दान अन्न     | दाल चना                  |
| दान द्रव्य   | घी                       |



## ग्रह फल

### सूर्य

बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी ,आलसी, उदासीन, परदेशवासी, मित्र-द्वेषी एवं कृश शरीर होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, क्रोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वादश भाव में स्थित है अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगे एवं जीवन में शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको नित्य अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं आपको भी पुण्य कार्यों को करने की नित्य प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

आप का भी उनके प्रति मन में पूर्ण आदर का भाव रहेगा एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का आप अनुपालन करते रहेंगे। आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे परन्तु बीच बीच में कभी सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनाव या कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही आजीवन में हमेशा उनके सहयोग एवं सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे तथा समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार की वांछित सहयोग भी प्रदान करेंगे।

### चन्द्र

द्वितीयभाव में चन्द्रमा हो तो जातक परदेशवासी, भोगी, सुन्दर मधुरभाषी, भाग्यवान्, सहनशील एवं शान्तिप्रिय होता है।

मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थिर सम्पत्तिवान्, शूर, दृढ़ शरीरवाला, बन्धुहीन, कामी, उतावला, जलभीरु, यात्रा करने का शौकीन ,आत्माभिमानि एवं साहसी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं कोई विशेष शारीरिक रुग्णता नहीं रहेगी। वे आपको हमेशा धनार्जन एवं विद्याध्ययन संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आपकी पारिवारिक उन्नति एवं पालन करने में भी उनकी मुख्य भूमिका रहेगी यदा कदा वे आपको नैतिक शिक्षा भी देंगी तथा आपके प्रति उनके हृदय में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। इसके साथ ही जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि आप उनके सहयोग से ही करेंगे।

आप की भी माता के प्रति हादिक श्रद्धा रहेगी एवं उनकी आज्ञा पालन करने में आप गौरव की अनुभूति करेंगे। साथ ही जीवन में सर्वप्रकार से उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा समयानुसार उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते रहेंगे। अतः आपकी परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं जीवन में एक दूसरों की सहायता एवं सहयोग का आदान प्रदान करके सुखानुभूति करेंगे।

## मंगल

द्वितीय भाव में मंगल हो तो जातक कटुभाषी, नेत्रकर्ण रोगी, कटुतिक्त रसप्रिय, धर्मप्रेमी, चोर से भक्ति, कुटुम्ब क्लेश वाला, पशुपालक, निर्बुद्धि एवं निर्धन होता है।

मेष राशि में मंगल हो तो जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान्, लोकमान्य, दानी एवं राजमान्य होता है।

आप के जन्म काल में मंगल द्वितीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति भी करते रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव विद्यमान रहेगा। धनार्जन एवं विद्यार्जन संबंधी कार्यों में वे आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही जीवन में अन्य महत्वपूर्ण एवं शुभ कार्यों में भी आपको उनका पूर्ण सहयोग एवं सद्भाव प्राप्त होगा।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा उनमें आपसी मतभेदों के कारण अनिश्चित काल के लिए कटुता या तनाव का वातावरण होगा। जीवन में आप हमेशा भाई बहिनों का सुख दुःख में ध्यान रखेंगे तथा अपनी ओर से हमेशा उन्हें पूर्ण आर्थिक एवं अन्य रूप में सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

## बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

## गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

मीन राशि में गुरु हो तो जातक लेखक, शास्त्रज्ञ, गर्वहीन, राजमान्य, शान्त, व्यवहार कुशल, दयालु, साहित्य प्रेमी, विरासत में धन सम्पत्ति प्राप्त करने वाला, साहसी एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

## शुक्र

ग्यारहवें भाव में शुक्र हो तो जातक परोपकारी, लोकप्रिय, जौहरी, विलासी, वाहनसुखी, स्थिरलक्ष्मीवान्, धनवान् गुणज्ञ, कामी एवं पुत्रवान् होता है।

मकर राशि में शुक्र हो तो जातक बलहीन, कृपण, घ्दयरोगी, दुखी, मानी, नीच जाति की

स्त्रियों में रुचि, सिद्धान्तहीन एवं अनैतिक चरित्र होता है।

### शनि

नवम भाव में शनि हो तो जातक धर्मात्मा, साहसी, प्रवासी, कृशदेही, भीरु, भातृहीन, शत्रुनाशक रोगी वातरोगी, भ्रमणशील एवं वाचाल होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरहृदय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, कोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

### राहु

लग्न (प्रथम) में राहु हो तो जातक कामी, दुर्बल, मनस्वी, अल्पसन्तति युक्त, राजद्वेषी, नीचकर्मरत दुष्ट, स्तकरोगी, स्वार्थी एवं बात-बात पर सन्देह करने वाला होता है।

मीन राशि में राहु हो तो जातक आस्तिक, कुलीन, शान्त, कलाप्रिय और दक्ष होता है।

### केतु

सप्तम भाव में केतु हो तो जातक मतिमन्द, मूर्ख, दुःखद विवाहित जीवन, पति-पत्नी में सम्बन्ध विच्छेद, शत्रुभीरु एवं सुखहीन होता है।

कन्या राशि में केतु हो तो जातक सदारोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोग एवं व्यर्थवादी होता है।



## दशा विश्लेषण

**महादशा :- राहु  
( 18/07/2015 - 17/07/2033 )**

राहु की महादशा 18/07/2015 को आरम्भ और 17/07/2033 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 18 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में राहु प्रथम भाव में स्थित है। इस स्थान से राहु की दृष्टि सातवें भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 7 वर्ष की मंगल दशा चल रही थी। मंगल के कारण आपको सफलता, ख्याति, सम्पत्ति तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई होगी। राहु की वर्तमान दशा में आपको धन की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय मिलेगी तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

**स्वास्थ्य :**

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके शरीर के ऊपरी भाग तथा सिर में कष्ट हो सकता है। आप सरदर्द तथा पित्तदोष से ग्रसित हो सकते हैं और मौसम में परिवर्तन के कारण संक्रामक बीमारी, चर्मरोग, चेहरे पर तथा माथे में फोड़ा आदि हो सकते हैं। इन मामूली शिकायतों को छोड़ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

**अर्थ और व्यवसाय :**

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त अच्छी रहेगी। आपको लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपकी धार्मिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण आपको सम्पत्ति और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको सट्टे में अच्छा लाभ मिलेगा। राहु की दशा में आपको धन का अचानक लाभ होगा। आपको मित्रों से लाभ हो सकता है। जीविका या व्यवसाय के लिए वायुयान चालन, दवा, कम्प्यूटर, मशीनरी, समुद्री सेवा, वायु-सेना आदि के क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। दवा, रसायन, औजार, इग, मशीनरी आदि का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों का स्थानान्तरण हो सकता है जो अन्त में लाभदायक होगा और अचानक लाभ तथा कार्य स्थान में अप्रत्याशित पदोन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को उच्चाधिकारियों से अच्छा लाभ, कार्य में सफलता तथा आय में वृद्धि होगी। व्यवसाय में उन्नति तथा आर्थिक खुशहाली के लिए यह दशा अत्यन्त उत्तम है।

**वाहन, यात्रा, जायदाद :**

चन्द्र की अन्तर्दशा में आपको वाहन का सुख मिलेगा। आपको जीवन का हर सुख मिलेगा। आप अचल तथा भूसम्पत्ति के स्वामी होंगे। इस दशा के दौरान आपकी अनेक यात्राएं होंगी। बुध की अन्तर्दशा में आपकी छोटी जबकि गुरु की अन्तर्दशा में लम्बी यात्रा होगी। विदेश यात्रा हो सकती है।

**शिक्षा :**

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी। इन्जीनियरिंग, गणित, विज्ञान, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा कम्प्यूटर विज्ञान में आपकी रुचि होगी। आपको आपके प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय मिलेगी और परीक्षा तथा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे। आप में नेतृत्व-गुण और साहस है और आप स्वभाव से स्वतन्त्र हैं। आप चतुर और कूटनीतिज्ञ हैं।

परिवार :

परिवार के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। आपके बच्चे भाग्यवान और खुशहाल होंगे। आपका उनके साथ सम्बन्ध अच्छा रहेगा। आपके जीवनसाथी की यात्रा, विदेशियों से सम्पर्क और भौतिक लाभ होगा। आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा। आपकी माता यात्रा और तीर्थाटन पर जाएंगी और दान-पुण्य का कार्य करेंगी और आपके पिता को सट्टे में लाभ तथा धन में अचानक वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को हर प्रकार का लाभ तथा सम्पत्ति मिलेगी। बड़े भाई-बहन साहसी और कठिन परिश्रमी होंगे, उनकी छोटी यात्रा होगी और वे संचार-व्यवस्था के क्षेत्र में सफल होंगे। आपका उनके साथ सम्बन्ध मधुर रहेगा। इस दशा के दौरान आपको अच्छा सम्मान, भौतिक समृद्धि और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा के दौरान आपको सम्पत्ति और लाभ, कार्य में सफलता और खुशहाली मिलेगी। गुरु की अन्तर्दशा में आपकी यात्रा होगी और समृद्धि तथा उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी जबकि शनि की अन्तर्दशा में व्यवसाय में प्रगति और उपार्जन अच्छा होगा। बुध की अन्तर्दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य कुछ खराब होगा, किन्तु ननिहाल से लाभ और छोटी यात्रा होगी। केतु कुछ समस्या दे सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा में साझेदारों से लाभ मिलेगा और विवाह होगा जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के दौरान बच्चों से सुख और सट्टे में सफलता मिलेगी। चन्द्र की अन्तर्दशा में आपको माता से लाभ और जीवन का सुख मिलेगा जबकि लग्न स्वामी मंगल की अन्तर्दशा के दौरान यश, ख्याति, उत्तम स्वास्थ्य तथा सफलता मिलेगी।

**अंतर्दशा :- राहु - गुरु  
( 30/03/2018 - 23/08/2020 )**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 18/07/2015 को प्रारंभ होकर 17/07/2033 को समाप्त होगी। इस महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 4 मास 24 दिन रहेगी जो आपके लिए 30/03/2018 को प्रारंभ होकर 23/08/2020 को समाप्त होगी।

बृहस्पति आपकी जन्मपत्री में लग्न में स्थित है। लग्न शारीरिक बनावट, आकृति, स्वास्थ्य, जन्मजात स्वभाव और आदतें, सम्मान, गरिमा, सामान्य शुभत्व, चेहरे का ऊपरी भाग, आयु और जीवन की रूपरेखा आदि का परिचायक है।

बृहस्पति शुभ ग्रह है। लग्न में स्थित होकर बृहस्पति आपकी कुंडली के 5, 7, 9 भावों पर दृष्टि डाल रहा है और उनके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप सुख-सुविधासंपन्न होंगे। व्यायाम करेंगे, जिससे शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। उत्तम वस्त्र धारण करेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। यह अंतर्दशा आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगी।

शुभत्व में वृद्धि के लिए विशेषतया बृहस्पतिवार, या सप्ताह में किसी भी दिन बृहस्पति के मंत्र का जाप करते हुए पीपल की जड़ में जल अर्पित करें।

**अंतर्दशा :- राहु - शनि  
( 23/08/2020 - 30/06/2023 )**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है जो आपके लिए 18/07/2015 को प्रारंभ होकर 17/07/2033 को समाप्त होगी। इस महादशा में शनि अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 10 मास 6 दिन होगी जो आपके लिए 23/08/2020 को प्रारंभ होकर 30/06/2023 को समाप्त होगी।

शनि आपकी जन्मपत्री में नवम भाव में स्थित है। नवम भाव श्रद्धा, भाग्य, धार्मिक और आध्यात्मिक विचार, अंतर्ज्ञान, भविष्यज्ञान, उपासनास्थल, पिता, धर्मगुरु, लंबी यात्राएं, हवाई यात्रा, उच्च शिक्षा और घुटनों का प्रतिनिधि है। नवम भाव में स्थित होकर शनि आपकी कुंडली के 11, 3, 6 भावों पर दृष्टि डाल रहा है और उनके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपके पेट में फोड़ा हो सकता है। आप साहसी होंगे, एकाकी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धर्म में रुचि कम होगी, घरेलू जीवन में मितव्ययी हो सकते हैं। दान-धर्म की संस्था के व्यवस्थापक बन सकते हैं। शनि आपको धैर्यवान बनाएगा।

अरिष्ट से बचाव और शुभत्व में वृद्धि के लिए नीलम चांदी या सोने की अंगूठी में जड़वाकर शनिवार के दिन पूजा के बाद दायें हाथ की मध्यमा अंगुली में, अंगूठी को कच्चे दूध और गंगाजल में धोकर शनि के वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए धारण करें।




**अंतर्दशा :- राहु - बुध  
( 30/06/2023 - 16/01/2026 )**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 18/07/2015 को प्रारंभ होकर 17/07/2033 को समाप्त होगी। इस महादशा में बुध अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी जो आपके लिए 30/06/2023 को प्रारंभ होकर 16/01/2026 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्री में द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव हानि, बाधाएं, धन के दुरुपयोग, धोखा, दान, परिवार से अलगाव, दुख, छुपे दुश्मन, कांड, गुप्त दुख, शैयासुख और विदेश में जीवनयापन का संकेतक है। द्वादश भाव में स्थित होकर बुध कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसे अपने कारकत्व से प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप दर्शनिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। चिंतित और भ्रमित रह सकते हैं। विवाहेतर यौन संबंध हो सकते हैं। मष्तिष्क का सकारात्मक उपयोग करना उचित रहेगा।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए बुध के तांत्रिक मंत्र के 36000 जाप करें।



# योग

## हंस योग

स्वगेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैरुच्चोपगैर्वाचनसूनुमुख्यैः ।  
क्रमेण योगा रुचकाख्यभद्रहंसाख्यमालव्यशशाभिधानाः ॥  
रक्तास्योन्नतनासिकासुचरणो हंसप्रसन्नेन्द्रियो  
गौरः पीनकपालरक्तकरजो हंसस्वनः श्लैष्मिकः ।  
शङ्खाब्जाङ्कुशमत्स्यदामयुगकैः खट्वाङ्गमालाघटै-  
श्चत्पादकरस्थलो मधुनिभे नेत्रे सुवृत्तं शिरः ॥  
जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति तृप्तिं वानितासुनून् ।  
ओच्चः रसाष्टाङ्गुलसम्मितं तत्तनोस्तथायुरिहास्ति षष्टिः ॥  
वाहलीकदेशादरशूरसेनगन्धर्वगङ्गायमुनान्तरालान् ।  
भुक्त्वा वनान्ते निधनं प्रयाति हंसोऽयमुक्तो मुनिभिः प्रमाणैः ।  
॥ मानसागरी ॥ अ. 4/श्लोक 2, 9 1-3 ॥

यदि जन्मपत्रिका में स्वराशि अथवा उच्चहोकर गुरु केन्द्र में हो तो हंसयोग बनता है।

इस योग वाला जातक ऊंची नासिका (नाक), सुन्दरचरण (पाँव), हंससदृश प्रसन्न इन्द्रिय वाला (जिसकी अङ्ग प्रत्यङ्ग हंस की तरह सुन्दर हों), गौरवर्ण, मधुरवाणी वाला, कफ प्रकृतिवाला, मछली, कमल, अङ्कुश, शङ्ख, दाम, खट्वाङ्ग, माला, जुआ, घड़ा इन चिह्नों से सुशोभित हाथ पाँव वाला, मधु के समान नेत्रवाला और सुन्दर गोलाकार शिर वाला होता है। जलाशय में स्नेह रखने वाला, अत्यन्त कामी, स्त्रियों से तृप्ति न पाने वाला, 86 अङ्गुल ऊँचा शरीर वाला तथा 60 वर्ष तक जीने वाला होता है। वाहलीक सुरसेन, गन्धर्वादिदेशों में तथा गङ्गा यमुना के मध्य देशों में भोग करके वन में मृत्यु प्राप्त करता है।

योग कारक ग्रह : गुरु

योग की संभावना : 12 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूप से घटित हो रहा है। फलस्वरूप- आप उच्चकोटि के विद्वान, राजनेता, मंत्री, शैक्षणिक क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त, धार्मिक संस्था के अध्यक्ष, ज्योतिष के विद्वान या ज्योतिष विषय से सम्बंध रखने वाला, आध्यात्मिक गुरु, प्रवक्ता, संस्था के संस्थापक, शेयरब्रोकर, राजदूत, वित्तीय संस्था के स्वामी तथा विविध-क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त करेंगे।

सेवा की दृष्टि से आप शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्य, धर्मगुरु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्रशासनिक सेवा आइ. ए. एस. में विशेष ख्याति एवं सफलता प्राप्त करने में अग्रणी होंगे। आप राज्य में मंत्री, कूटनीतिज्ञ, उच्च शास्त्रकार, तथा विधिविशेषज्ञ के रूप में विश्वविख्यात होंगे।

व्यवसाय के दृष्टिकोण आप शैक्षणिक संस्था संचालक, कम्पनी स्वामी, पीले रंग की वस्तुएं, धातुओं के उच्च व्यवसायी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कन्सलटेंसी, वित्तीय संस्था के माध्यम से धन के लेन-देन से बहुत लाभ अर्जित करके धनी, ऐश्वर्यशाली, सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

## वाशि योग

सूर्याद्व्ययगैर्वाशिर्द्वितीयगैश्चन्द्रवर्जितैर्वेशि ।  
उत्कृष्टवचाः स्मृतिमानुद्योगयुतो निरीक्षते तिर्यक् ।  
सर्वशरीरे पृथुलो नृपतिसमः सात्त्विको वाशौ ॥

॥ सारावली ॥ अ.14/श्लोक 1, 6 ॥

यदि जन्मकुंडली में सूर्य से द्वादश स्थान में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह विद्यमान हो तो वाशि नामक योग बनता है ।

योग कारक ग्रह : शुक्र,सूर्य

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्णरूप से घटित हो रहा है । फलस्वरूप आप उत्कृष्ट वाणी वाले, स्मरण शक्ति वाले, उद्यमी, तिरछी दृष्टि वाले, स्थूल शरीर वाले, राजा के समान व्यक्तित्व वाले तथा सात्त्विक प्रवृत्ति वाले होंगे ।

## शकट योग

जीवान्त्याष्टारिसंस्थे शशिनि तु शकटः ॥  
क्वचित्क्वचिद्भाग्यपरिच्युतः सन् पुनः पुनः सर्वमुपैति भाग्यम् ।  
लोकेऽप्रसिद्धोऽपरिहार्यमन्तः शल्यं प्रपन्नः शकटेऽतिदुःखी ॥

॥ फलदीपिका ॥ अ. 6/श्लोक 14, 17 ॥

यदि पत्रिका में चंद्रमा से 6, 8 या 12 वें स्थान में बृहस्पति हो तो शकट योग बनता है ।

योग कारक ग्रह : चंद्र,गुरु

योग की संभावना : 12 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्णरूपेण स्थापित हो रहा है । फलस्वरूप जन्मभर दुःखी रहना, जीवन व्यथित रहना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सामान्य जीवन व्यतीत करना, भाग्यहीनता तथा पुनः भाग्य प्राप्ति के योग बनेंगे ।

## अमलयोग

चन्द्राद्योमन्यमलाह्वयः शुभखगैर्योगो विलग्नादपि ।  
क्षमेशः स्यादमले धनी सुतयशः संपद्युतो नीतिमान् ।

॥ फलदीपिका ॥ अ. 6/श्लोक 19-20 ॥

यदि पत्रिका में लग्न या चंद्रमा से दशम स्थान में शुभ ग्रह हो तो अमला योग होता है ।

योग कारक ग्रह : शुक्र,चंद्र

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्णरूपेण स्थापित हो रहा है । फलस्वरूप आप भूमि के स्वामी, धनी, नीतिवान् पुत्र एवं संपत्ति से युक्त यशस्वी व्यक्ति होंगे ।



## हर्ष योग

दुःस्थैर्भावगृहेश्वरैरशुभसंयुक्तेक्षितैर्वाक्रमाद्भावैः हर्षयोगः ।  
सुखभोगभाग्यदृढगात्रसंयुतो  
निहताहितो भवति पापभीरुकः ।  
प्रथितप्रधानजनवल्लभो धन-  
द्युतिमित्रकीर्तिसुतवांश्च हर्षजः ॥

॥ फलदीपिका ॥ अ. 6/ श्लोक 57, 63 ॥

यदि जन्मपत्रिका में छठ भाव या षष्ठेश अशुभ ग्रहों से युत या निरीक्षित हो तथा षष्ठेश दुःस्थान में निवास करता हो तो हर्षयोग होता है ।

योग कारक ग्रह : सूर्य, शनि

योग की संभावना : 6 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्णरूपेण स्थापित हो रहा है। फलस्वरूप आप भाग्यवान्, दृढ़ शरीर वाले व सुखी, भोगी, शत्रुजीत, पापकर्म में लिप्त एवं भयातुर होंगे परंतु आप प्रसिद्ध, प्रधानप्रिय, धन, पुत्र, मित्र से सुखी एवं यशस्वी होंगे ।

## पर्वत योग

लग्नाधिप्राप्तभूपतिस्थितराशिनाथः  
स्वोच्चस्वभेषु यदि कोणचतुष्टयस्थः ।  
योगः स पर्वताख्यः ।  
स्थिरार्थसौख्यः स्थिरकार्यकर्ता क्षितीश्वरः पर्वतयोगजातः ॥

॥ फलदीपिका ॥ अ. 6/श्लोक 35, 36 ॥

यदि जन्मपत्रिका में लग्नेश जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो पर्वत योग बनता है ।

योग कारक ग्रह : गुरु

योग की संभावना : 8 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्णरूप से घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपका सुख और धन दोनों स्थिर रहेगा। आप स्थिर कर्म करेंगे। मकान बनवाना, बाग लगाना, कल-कारखाने की स्थापना आदि आपके स्थिर कार्य होंगी,

## चामर योग :

भावैः सौम्ययुतेक्षितैस्तदधिपैः सुस्थानगैर्भास्वरैः  
स्वोच्चस्वर्क्षगतैर्विलग्नभवनाद्योगाः क्रमाद्द्वादश ।  
प्रत्यहं व्रजति वृद्धिमुदयां शूक्लचन्द्रइवशोभनशीलः ।  
कीर्तिमान् जनपतिश्चिरजीवी श्रीनिधिर्भवति चामरजातः ॥

॥ फलदीपिका ॥ अ.6/ श्लोक 44-45 ॥

यदि जन्मकुण्डली में लग्न में शुभ ग्रह हों या लग्न को शुभ ग्रह देखते हों तथा लग्नाधिपति अस्त न होकर उत्तम स्थान में अपनी राशि का या स्वस्थानीय होकर बैठा हो तो चामर योग बनता है।

योग कारक ग्रह : गुरु, बुध, गुरु

योग की संभावना : 96 में 1

आपकी जन्मकुण्डली में यह योग पूर्ण रूप से घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप शुक्ल पक्ष की चन्द्रमा की तरह वृद्धि को प्राप्त करेंगे। उसी तरह सुशील और सुन्दर भी होंगे। आप लक्ष्मीवान्, कीर्तिवान्, दीर्घायु और लोकपति होंगे।

### धेनु योग :

भावैः सौम्ययुतेक्षितैस्तदधिपैः सुस्थानगैर्भास्वैः

स्वोच्चस्वर्क्षगतैर्विलग्नभवनाद्योगाः क्रमाद्द्वादश।

सान्न्पान्न्विभवोऽखिलविद्यापुष्कलोऽधिककुटुम्बविभूतिः।

हेमरत्नधनधान्यसमृद्धो राजराज इवराजति धेनौ ॥

॥ फलदीपिका ॥ अ.6/श्लोक 44, 46 ॥

यदि जन्मपत्रिका में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हों या दूसरे भाव को शुभ ग्रह देखते हों और दूसरे भाव का स्वामी उदित होकर स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होता हुआ सुस्थान में बैठा हो तो धेनु योग बनता है।

योग कारक ग्रह : चंद्र, बुध, गुरु, मंगल

योग की संभावना : 96 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूप से घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप सुवर्ण, धन, धान्य और रत्न से समृद्ध, राजराज के समान होंगे। यहां पर राजराज के दो अर्थ हैं। 1. राजाओं का राजा, 2. कुबेर के समान भाव यह है कि आप धनवान होंगे। आप विद्या, कुटुम्ब, उत्तम भोजन आदि से युक्त होंगे।

### अनफा योग

अनफा रविरहितैः।

अन्त्ये कैरववनबान्धवाद्द्विहगैः ॥

वाग्मीप्रभुर्द्रविणवानगदः सुशीलो

भोक्तान्नपानकुसुमाम्बरकामिनीनाम्।

ख्यातः समाहितगुणः सुखशस्तचित्तो

योगे निशाकरकृते त्वनफे सुवेषः ॥

॥ सारावली ॥ अ. 13/श्लोक 1, 5 ॥

यदि जन्मकुण्डली में चंद्रमा से द्वादश भाव में सूर्य रहित कोई ग्रह हो तो अनफा योग बनता है।

योग कारक ग्रह : गुरु, चंद्र

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्णरूप से घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप कुशलवक्ता, सामर्थ्यवान्, धनवान्, नीरोग, सुन्दर शीलवान् अन्नपानपुष्पवस्त्र व स्त्री का सुख भोगने वाले, गुणी, सुखी तथा सुन्दर वेशभूषा वाले होंगे।

### अचल लक्ष्मी योग

चन्द्रेण मङ्गलो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत् ।  
तस्य जातस्य गेहं तु लक्ष्मीर्नैव विमुंचति ॥

॥ मानसागरी ॥ अ. 4/श्लोक 8 ॥

यदि जन्मकुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा चाहे जिस भाव में हो जातक के पास सदैव लक्ष्मी निवास करती है।

योग कारक ग्रह : चंद्र, मंगल

योग की संभावना : 144 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपके पास सदैव धन रहेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करेगी।

### कर्णरोग योग

तृतीयनाथे पापान्विते पापनिरीक्षिते वा वदन्ति कर्णोद्भवरोगमत्र ।  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ.4/श्लो.-49 ॥

यदि जन्मपत्रिका में तृतीयेश पाप युक्त या दृष्ट हो तो कर्णरोग होता है।

योग कारक ग्रह : शनि, शुक्र

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्णरूप से घटित हो रहा है फलस्वरूप आपको कर्णरोग होगा। ऐसा प्रतीत होता है।

### सर्प भय योग

॥ भारतीय ज्योतिष ॥ पृ.-285 ॥

यदि जन्मपत्रिका में तृतीयेश राहु स्थित राशि पद से युक्त हो अथवा लग्न राहु युक्त हो तो जातक को सर्प का भय होता है।

योग कारक ग्रह : राहु, गुरु

योग की संभावना : 4 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपको सर्प का भय होगा। ऐसा प्रतीत होता है।



### भवन नाश योग

गेहाधिपे नाशगते यदि स्यात्पापेक्षिते तद्गृहनाशमत्र ।  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ.4/श्लो.-63 ॥

यदि जन्मपत्रिका में सुखभाव का स्वामी द्वादश भाव में पाप ग्रह से युत हो तो भवन नष्ट हो जाता है ।

योग कारक ग्रह : सूर्य,बुध

योग की संभावना : 48 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है । फलस्वरूप आपको भवन सुख से वंचित होना पड़े ऐसा प्रतीत होता है ।

### पुत्रनाश योग

पापमध्ये तु यद्भावे तदीशेऽपि तथा स्थिते ।  
कारके पापसंयुक्ते पुत्रनाशं वदेत्तदा ॥  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ. 5/श्लो.-14 ॥

यदि जन्मपत्रिका में पंचम भाव या पंचमेश पाप ग्रहों के बीच हो, तथा संतान कारक ग्रह भी पाप युक्त हो तो पुत्रनाश योग बनता है ।

योग कारक ग्रह : राहु,मंगल,गुरु

योग की संभावना : 6 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है । फलस्वरूप आपको संतान सुख में बाधा हो ऐसा प्रतीत होता है ।

### तीव्रबुद्धि योग

बुद्धिस्थानाधिपस्यांशराशीशे शुभवीक्षिते ।  
वैशेषिकांशके वापि तीव्रबुद्धिं समादिशेत् ॥  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ. 5/श्लो.-35 ॥

यदि जन्मपत्रिका में पंचमेश जिसके नवांशक में हो वह शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा वैशेषिकांश में हो तो तीव्र बुद्धि योग बनता है ।

योग कारक ग्रह : शुक्र

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्णरूपेण घटित हो रहा है । फलस्वरूप आप तीव्र बुद्धि के होंगे, ऐसा प्रतीत होता है ।

### बहुपुत्र योग

पुत्रस्थानपतौ तु वा नवमपे पुंवर्गे पुरुषग्रहेक्षितयुते जातस्तु पुत्राधिकः ।  
॥ जातकपारिजात ॥ अ. 13/श्लो.-9 ॥

यदि जन्मपत्रिका में पंचमेश अथवा नवमेश पुरुष ग्रह के वर्ग में हो तथा पुरुष ग्रह से दृष्टिगत या युत हो तो बहुपुत्र योग बनता है।

योग कारक ग्रह : मंगल

योग की संभावना : 4 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपको अनेक पुत्रों का सुख प्राप्त हागा। ऐसा प्रतीत होता है।

### पुत्रहीन योग

शुक्रेन्दुवर्गे सुतभे विलग्नाच्छुक्रेण चन्द्रेण युतेऽथ दृष्टे ।  
शन्यारदृष्टे सति पुत्रहीनः ॥

॥ जातकपारिजात ॥ अ. 13/श्लो.-10 ॥

यदि जन्मपत्रिका में लग्न से पंचम भाव शुक्र या चंद्रमा से दृष्ट, युक्त और वर्ग में हो और उसपर शनि एवं मंगल की दृष्टि हो तो पुत्रहीन योग बनता है।

योग कारक ग्रह : मंगल, चंद्र, बुध, गुरु

योग की संभावना : 6 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप पुत्रहीन होंगे, ऐसा प्रतीत होता है।

### बहुपुत्र योग

॥ भारतीय ज्योतिष ॥ पृ.- 293 ॥

यदि जन्मपत्रिका में संतान भाव में वृष, कर्क और तुला में से कोई राशि हो, पंचम भाव में शुक्र या चंद्रमा स्थित हों अथवा इनकी दृष्टि पंचम भाव पर हो तो बहुपुत्र योग बनता है।

योग कारक ग्रह : शुक्र

योग की संभावना : 12 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप अनेक पुत्रों के सुख प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है।

### विना पीड़ा मृत्यु योग

सौम्यांशके सौम्यग्रहेऽथ सौम्य सम्बन्धगे वा क्षयेशे ।  
अक्लेशजातं मरणं नराणाम् ॥

॥ फलदीपिका-अ.14/श्लो.-21 ॥

यदि जन्मकुंडली में द्वादशेश सौम्यग्रह की राशि या सौम्य ग्रह के नवांश या सौम्य ग्रह के साथ स्थित हो तो विना पीड़ा की मृत्यु होती है।

योग कारक ग्रह : शनि

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपका मरण बिना क्लेश का होगा। ऐसा प्रतीत होता है।

### वैकुण्ठवास योग

वैकुण्ठं शशिजो सम्प्रापयेत्प्राणिनः  
सम्बन्धाद्व्ययनाकस्य कथयेत्त्रान्त्यराश्यंशतः।

॥ फलदीपिका-अ.14/श्लो.-23 ॥

यदि जन्मपत्रिका के द्वादश भाव में बुध स्थित हो या द्वादश भाव जिस ग्रह की नवांश में हो यदि उस नवांश में बुध हो अथवा द्वादश भाव के स्वामी बुध से कोई संबंध स्थापित करता हो तो मरणोपरांत वैकुण्ठवासी होता है।

योग कारक ग्रह : बुध

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप मरणोपरांत वैकुण्ठवासी होंगे। ऐसा प्रतीत होता है।

### मरणोपरांत ब्रह्मलोकवासी योग

सद्ब्रह्मलोकं गुरुः सम्प्रापयेत्प्राणिनः  
सम्बन्धाद्व्ययनायकस्य कथयेत्त्रान्त्यराश्यंशतः।

॥ फलदीपिका-अ.14/श्लो.-23 ॥

यदि जन्मपत्रिका में द्वादश भाव में गुरु स्थित हो या द्वादश भाव जिस ग्रह की नवांश में हो यदि उस नवांश में गुरु हो या द्वादश भाव गुरु से संबंध स्थापित करता हो तो मरणोपरांत ब्रह्मलोक में निवास करता है।

योग कारक ग्रह : गुरु

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी जन्मकुंडली में यह योग पूर्णरूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आप मरणोपरांत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है।

### पुत्रहीन योग

पुत्रेश्वरे दारपतौ बलाब्धे दृष्टे युते वा त्वरिनायकेन जातोऽनपत्यः।  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ-6/श्लो.-7 ॥

यदि जन्मकुंडली में पंचमेश एवं सप्तमेश बलिष्ठ होकर षष्ठेश से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को पुत्र नहीं होता है।

योग कारक ग्रह : चंद्र, बुध, सूर्य

योग की संभावना : 288 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। अतः आप पुत्रहीन



होंगे। ऐसा प्रतीत होता है।

### बहुभार्या योग

कुटुम्बकलत्रनाथाभ्यां समेतैर्ग्रहनायकैर्वा कलत्रसंख्यां प्रवदन्ति सन्तः ॥  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ.-6/श्लो.-14 ॥

यदि जन्मकुण्डली में द्वितीयेश या सप्तमेश के साथ जितने ग्रह हों उतनी पत्नी होती हैं।

योग कारक ग्रह : चंद्र,मंगल

योग की संभावना : 12 में 1

आपकी जन्मकुण्डली में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपके दो या दो से अधिक जीवनसाथी हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है।

### बहुभार्यायोग

कलत्रेशे बहुगुणे तुङ्गवक्रादिहेतुभिः ।  
बहुभार्यं नरं विद्यादुदयर्क्षगतेऽपि वा ॥  
॥ सर्वार्थचिन्तामणि ॥ अ.-6/श्लो.-15 ॥

यदि जन्मपत्रिका में सप्तमेश उच्च वक्र आदि बहुत गुणों से युक्त हो अथवा लग्नस्थ हो तो मनुष्य बहुत स्त्रियों से युक्त होता है।

योग कारक ग्रह : बुध

योग की संभावना : 12 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्णरूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपके अधिक जीवनसाथी होंगे। ऐसा प्रतीत होता है।

### द्विभार्या योग

लग्नेशे द्विभार्यो जारो वा ॥  
॥ बृहद्योग रत्नाकर ॥ पृ. 303 ॥

यदि जन्मपत्रिका में लग्नेश लग्नस्थ हो तो द्वि भार्या योग होकर जार (व्यभिचारी) रहता है।

योग कारक ग्रह : गुरु

योग की संभावना : 12 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपके दो विवाह हो, ऐसा प्रतीत होता है।

### द्विभार्या योग

पापाः सप्तमे द्विभार्यः ।  
॥ बृहद्योग रत्नाकर ॥ पृ. 303 ॥

यदि जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो द्विभार्या योग बनता है।

योग कारक ग्रह : केतु

योग की संभावना : 4 में 1

आपकी जन्मपत्रिका में यह योग पूर्ण रूपेण घटित हो रहा है। फलस्वरूप आपके जीवन में दो जीवनसाथी आएंगे, अर्थात् आपके दो विवाह हो, ऐसा प्रतीत होता है।

### शुभकर्त्तरी योग

व्ययस्वगैः शुभैर्विलग्नात्सौम्यग्रहकर्त्तरी च ॥

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 5 ॥

यदि लग्न से द्वादश एवं द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हों तो शुभकर्त्तरी योग होता है।

योग कारक ग्रह : बुध, चंद्र

योग की संभावना : 3 में 1

आपकी पत्रिका में शुभकर्त्तरी योग का सृजन हो रहा है। फलस्वरूप आप बुद्धिमान, रूप, शील और गुण से सम्पन्न व्यक्ति होंगे।

### पाप कर्त्तरी योग

”पापयोगोद्भवः कामी पापकर्मपरार्थयुक् ॥

व्ययस्वगैः पापैर्विलग्नात्पापाख्यः ।”

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 5 ॥

यदि लग्न से द्वादश एवं द्वितीय भाव में पापग्रह हों तो पापकर्त्तरी योग होता है।

योग कारक ग्रह : बुध, गुरु

योग की संभावना : 6 में 1

### पारिजात योग

”सपारिजातद्युचरः सुखानि ।”

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 34 ॥

जिसकी पत्रिका के “पारिजात” भाग में ग्रह हों तो उसे सभी प्रकार के उत्तम सुख की प्राप्ति होती है।

योग कारक ग्रह : सूर्य, मंगल, शुक्र

योग की संभावना : 2 में 1

आपकी पत्रिका में ग्रह “पारिजात” वर्ग में स्थित है। फलस्वरूप आपको सभी प्रकार का उत्तम सुख प्राप्त होगा।

## गोपुरांश योग

”सगोपुरांशो यदि गोधनानि ”

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 34 ॥

जिस जातक की पत्रिका में “गोपुरांश” भाग में ग्रह स्थित हो, वह मनुष्य गौ और धन दोनों से युक्त होता है।

योग कारक ग्रह : गुरु

योग की संभावना : 4 में 1

आपकी पत्रिका में “गोपुरांश” योग का सृजन हो रहा है। फलस्वरूप आप गो धन अर्थात् पशुओं और धन से पूर्ण रहेंगे।

## वासि योग

”व्ययखेटैर्वाशि दिनेशात् ।”

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 51 ॥

यदि जन्मपत्रिका में सूर्य से बारहवें भाव में कोई ग्रह हो तो “वासि” योग का निरूपण होता है।

योग कारक ग्रह : शुक्र,सूर्य

योग की संभावना : 3 में 1

आपकी पत्रिका में पूर्णरूपेण “वासि” योग का सृजन हो रहा है। फलस्वरूप आपकी दृष्टि मन्द अर्थात् आपमें दृष्टिदोष रहेगा। आप परिश्रमी, नीचेदेखनेवाला एवं असत्यवादी होंगे।

## वेशि योग

”धनखेटैर्वेशी दिनेशात्”

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 51 ॥

यदि जातक के जन्मकाल पत्रिका में सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह स्थित हो, तो जातक पर वेशि योग का सृजन होगा।

योग कारक ग्रह : गुरु,राहु,सूर्य

योग की संभावना : 3 में 1

आपकी पत्रिका में पूर्णरूपेण “वेशि” योग का सृजन हो रहा है। फलस्वरूप आप दयावान, स्थूल शरीर वाले, चतुरवक्ता, आलस्य से युक्त एवं वक्र दृष्टि वाले प्राणी होंगे।

## उभयचारिक योग

”व्ययधनयुतखेटै दिनेशादुभयचारिकयोगः ।”

॥ बृ. पा. होरा. -योगाध्याय-श्लो. 51 ॥

यदि जन्म काल सूर्य से द्वादश और द्वितीय भाव में ग्रह स्थित हो तो



“उभयचारिक” योग का निरूपण होता है।

योग कारक ग्रह : बुध,चंद्र,मंगल

योग की संभावना : 6 में 1

आपकी पत्रिका में पूर्णरूपेण “उभयचारिक” योग का सृजन हो रहा है। फलस्वरूप आप सहनशील, स्थिर बुद्धिवाले, समृद्धिशाली, बलशाली, एकहरा शरीरवाले, मध्यमकद के सीधी दृष्टिवाले, धन-धान्य एवं लक्ष्मी से युक्त होंगे।

